



# **AKSH OPTIFIBRE LIMITED**

A - 32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,

New Delhi-110044, INDIA

Tel.: +91-11-49991700, 49991777

Fax: +91-11-49991800

E-mail: aksh@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com CIN NO. L24305RJ1986PLC016132

August 17, 2022

To,

National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai- 400 051.

Scrip Code: AKSHOPTFBR

**BSE Ltd** 

Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001

Scrip Code: 532351

Subject: Submission pursuant to Regulation 30 & Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation, 2015.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication published in "The Financial Express" and "Lokmat" on August 17, 2022 in compliance to MCA Circular 20/2020 dated May 5, 2020, pertaining to the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company to be held on Friday, September 16, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

You are requested to take the same on records.

for Aksh Optifibre Limited

Anubhhav Raizada Company Secretary

Encl: a/a

# WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

www.nseindia.com and on the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com

### **E-VOTING INFORMATION**

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date 05th September 2022.

In compliance with the provisions of Section 108 of Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, Members are provided with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed at the AGM as set forth in the notice using an electronic voting system ("remote e-voting"), provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by the Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the Company's website at www.gocolors.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and on the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of NSDL at evoting@nsdl.co.in.

The remote e-voting period commences from 08th September 2022 at 9.00 a.m. and ends on 11th September 2022 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled thereafter by NSDL. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member as of the cut-off date i.e. 5th September 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

Members holding shares in Physical form can send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company (RTA), at einward.ris@kfintech.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

In case of any query/ grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Maro, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 1020 990 and 1800 224 430.

Ms. Srinidhi Sridharan, Company Secretary in Practice (Membership no: 47244, C.P.No.17990) of M/s.Srinidhi Sridharan & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the voting at AGM in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be communicated within two working days of conclusion of AGM to Stock Exchanges (NSE & BSE), NSDL and placed on the website of the Company

The documents will be available for inspection by the members in electronic mode. Members can send an e-mail to companysecretary@gocolors.com requesting for inspection.

### **BOOK CLOSURE**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, it is hereby informed that the Share Transfer Books and Register of Members will be closed from 06th September 2022 to 12th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of 12th Annual General Meeting (AGM). scheduled on 12th September 2022

Chennai August 17, 2022

By Order of the Board For Go Fashion (India) Limited V.Gavathri Company Secretary

ring User ID se may be able on the ng are given Company f Directors

ny Limited Sdl rabh Gadia Ang Director 01/94997

N

West,

Te Company danferencing en the Notice

at have been th Depository prindia.in. Mh 91 of the

USBI (Listing Inf Members to September.

Companies the BI (Listing H/ is pleased ctronically Ms are given

im, 022;

collity to vote

Ar Notice and by sending N en existing

September,

at the AGM VC/OAVM e remote e-15 minutes

the register ove cut-off gorvoting

Vindia.in and

0 Connected b\_ Mumbai,

t Notice sent Fdia Limited

ashLimbani a Secretary CS-31531

The Above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the LODR Regulations.

For, Marwadi Shares and Finance Limited

Place : Raikot Date: 17.08.2022

(10)

Mr. Ketan H. Marwadi Managing Director DIN: 00088018

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

CIN: L24305RJ1986PLC016132 Registered. Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase -III, Bhiwadi -301019, Rajasthan Tel No.: 01493-220763, 221333, Fax No.: 01493-221329

Corporate Office: A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044

Tel: No. 011-4991700, Fax No. 011-49991800 E-mail: investor.relations@akshoptifibre.com, Website: www.akshoptifibre.com

Information regarding 35th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

The 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Aksh Optifibre Limited ("the Company") will be held on 11:30 A.M. on Friday, September 16, 2022, through video conferencing ("VC")/other audio visual means ("OVAM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI circular number SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2021-22 will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The said documents will also be available on the website of the Company at www.akshoptifibre.com, the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company's RTA e-voting website at https://evoting.kfintech.com

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged its RTA, KFin Technologies Limited ("KFin") to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/ OAVM through KFin e-Voting System. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2021-2022 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below

- a. For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to einward.ris@kfintech.com
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s
- Members who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with the Company's RTA, KFin by accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx

for Aksh Optifibre Limited Sd/-Anubhhav Raizada Company Secretary

Place: New Delhi Date: August 17, 2022

# तीन बीघा भूमि पर बसाई गई अवैध कॉलोनी को किया पूर्णतः ध्वस्त

## सओमोटो के तहत आवासीय कॉलोनी की सडक सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाए

जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई गई नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णत: ध्वस्त किया गया। साथ हो सुओगोटो के तहत: आवासीय कॉलोनी की रोड तीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया रोड सीमा के करीब 35 अतिक्रमणों-चबुतरें, लोडे की जालियां, दीवारो से निर्मित प्रनक्तोजर इत्यादि को इटवाय जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जीन-12 के क्षेत्राधिकार लालचंदपुरा रोड पर अवस्थित पीथाञास पंचायत के खानडा जाले बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये 'बालाजी धाम ' के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मीका पाकर रातों-रात बनायी जा रही मिड़ी-ग्रेवल की सडके वाउण्डोबाल, विलाजामा

निर्माण व अन्य अवैध निर्माण की

सूनना प्राप्त होते हो आज अविलंब जीन-12 के राजस्य व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदरों की नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 13 तथा गार्ड पर्ड जोन में प्रहस्थापित राजस्य ह तकतिकी स्टॉफ को निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। वेडीए का ध्वस्तीकरण में हुये

लाय-वर्षे का आंक्रजन करताकर

ने डीए हारा भाननीय राजस्थान उच्च न्याबालय डी.ची. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत् माननीय राजस्थान तच्च न्याचालय के आदेशों के ऋग में प्रवर्तन प्रकोत्र दारा आज दिनांक 16.08.2022 को जोन-12 के क्षेत्राधिकार में सिरसी रोड पर अवस्थित "गर्गेश विहार" कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में करीय 35 स्थानो पर अतिक्रमण कर

बनावे गये 05 चब्रुतरे व 30 स्थानों पर

नियमानुसार संबंधित कास्तकार से

वसली की जायेगी।

एनक्लोजर, इत्यादी अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-12 के राजस्त व राकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवतंन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक करवाया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12 तथा पाधिकरण में उपलब्ध जाते, लेबर गार्ड एवं जोन पदस्थापित राजस्य व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा स्राप्तादित की गई।

प्रधान मनीया गुजर, मनोज कुमार घुमरिया, सल, सुरेन्द्र फोजी विशिष्ट अतिथि

थे कार्यक्रम का संचालन हवासिंह जाखड़ ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि

सुनील कुमार जाखड़ ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर कहीं नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। इस मौके पर चुवा नेता मनोज कमार धमरिया ने खिलाडी सनील जाखड

इस मौके गर गांव के खेल मैदान के लिए

लाख रुपयों का चैक भेट किया

### मुख्यमंत्री ने दिया कच्ची बस्ती को सीगात रावण मंडी बस्ती के गरीब नागरिकों में खशी की लहर

की पूर्व संध्या पर 2 माह पूर्व वर्वादी का दंश हेल चुके कच्ची बस्ती में रहने वाले गरिकों के लिए गम को भुला कर आगे बढ़ने का निमंत्रण था और यह निमंत्रण देने

प्रदेश के मुख्यमंत्री बाटी बात यह थी कि च्ची बस्ती में स्ववं पहुंचे और पहुंच कर उन्होंने कच्ची बस्ती वे नागरिकों को हर प्रकार से कष्ट से मुक्ति के लिए मदद करने की बात कही उनके साथ में आए अधिकारियों के दल में जयपुर जिला कलेक्टर भी मौजूद

बस्ती के नागरिकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। आजादी की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री कच्ची बस्ती के नानरिकों के हाल नने पहुंचे थे इस अवसर पर भुमंतु अर्थ धुमंतु तथा विमृक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिले के सभी अधिकारी उनकी इस मुहिम में मदद करेंगे और कच्ची बस्ती में उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यों में सरकार पूरी मदद करेगी उन्होंने वहां उपस्थित जयपुर जिला कलेक्टर को घुमंतु अर्थ घुमंतु तथा विमुक्त जाति

थे जिन्हें मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि रावण मंडी कर्ज्य

अधस्यत वयपूर । नाता ऋत्करित को धुमतु अध धुमतु वया विध्यक्र जाति पायिषद द्वारा चलात चार के कार्यों में मदद करने को हिटायन दी। इस अवसार पर अपनी बरती की व्यथा तुनते हुए बरती के मुखिया तथा युमंतु अर्थ युमंतु विमृत्त जाति परियद के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश महाराज के आंखू छनक पढ़े बिस पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को कहा कि आप लोग निराश ना हो मैं हमेशा आपके साथ हूं।

पुपत्ति अपे पुणते निवास कारण कारण कारण कारण पुणते पुणते के प्रति अपे पुणते कारण कारण कारण कारण कारण नाथ, अबिद लोगों के नेतृत्व में स्वत्ति के तरीव नागरिकों ने अहोक रहलोत जिंदाबाद के नारे से माहील को गुंजायमान कर दिया। हाथों में तिरंग लेकर खड़े बसती के गरीन वच्चों से उनकी हिस्सा के

बारे में स्वाल जवाब करते हुए मरुवमंत्री अशोक राहलीत ने बस्ती के लोगे बीच में लगभग 15 मिनट बिताए इस अवसर पर प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को बस्ती के सर्वागीण विकास तथा जयपुर के अन्य कर्च्य बरितयों में चुमंतु अर्थ घुमंतु तथा बिगुक्त जाति परिषद द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में हर संभव मदद करने की हिटायत दी।

# व्यापार मण्डल ने निकाली तिरंगा रैली



**जयपुर।** जाट के कुएं का रास्ता स्वर्णकार व्यापार मण्डल द्वारा गजादी के अमद महोत्मव पर एक विशाल विसंगा रैली का आयोजन मण्डल अध्यक्ष प्रदीप सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आश्चन पर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर परे जोश साथ पुरानी बस्ती की गलियों में सभी व्यापारी बंधुओं के साथ तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली में महामंत्री ललित सोनी, शंकर दिनेश गप्ता, पर्व पार्यंद विजय सोनी, रमनंदन सोनी सहित परी

### अरांर्ड में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस



वर्तत्रता दिवस आजादी के अपृत महोत्सव के रूप हर्षोद्धास के साथ मनाया गया। उपखण्ड स्तरीय समारोह राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ जहाँ प्रधान सीता देवी पूनिया ने जण्डारोडण कर राष्ट्रीय थ्वज को सलामी दी तथा तहसीलदार हतुमान प्रसाद व पंचायत समिति प्रधान सहित अधिकारियों ने परेड् ुता विश्व किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान सीता देवी थी जबकि अध्यक्षता तस्मीलदार हनुमान प्रसाद ने को तथा विश्विष्ट अतिथि विकास अधिकारी पुरूषोतम शर्मा, सीबोईईओ प्रेमचंद अजमेरा व स्रपंच रामस्वरूप नायक प्रधानाचार्या हेमलता शर्मा थे। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए वही प्रतिभाओं का सम्मान किया दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों : स्टाफ, व अन्य कर्मचारी मीजूद थे। वही अराई पुलिस थाने एएसआई छोटू लाल , तहसील कार्यालय पर तहसीलदार हनुमान प्रसाद, पंचायत समिति पर प्रधान सोता देवी , ग्राम पंचायत अराई पर सरपंच रामस्वरूप नायक, आदि मौजूद रहे

# कामनवेल्थ में स्वर्ण पदक प्राप्त कर गांव आने पर सुबेदार सुनील जाखड का ग्रामीणों ने किया स्वागत

नवासी सुबेदार सुनील ज खड़ ने इंग्लैण्ड में चल रहे कामनबेल्थ खेलों में तलवार बाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त या किया कॉमनशेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात अपने सनारी आने गलवार को ग्रामीणों ने

सुबेदार सुनील जाखड का समारोह पूर्वक अभिनंदन किया। नीमकाथाना से सुनारी गाँव तक बाहन रैली निकालकर गार्च बाजे दो दिवसीय मंडलीय

सम्मेलन सम्पन्न

जयपुर । गांधने जान इत्ययारस प्रस्तांक प्रसासहरक जरपुर । प्रस्तांक प्रथम का दो दिवसीय मंडलीय सम्मेलन सम्मक हुआ। सम्मेलन मे अचटुर मण्डल की सभी हालाओं के प्रतिनिध्यों ने भाग लिया सम्मेलन मे ध्यव्यारिक्य के पश्चाल सर्वप्रथम इद्याल सर्व प्रथम प्रसास करीया ।

रवीकार कर लिया गया उसके पश्चात विभिन्न अमिक मुद्दो पर सार्थक चर्चा दुई। सम्मेलन मे AllEA के उपाध्यक्ष

जयपुर। नार्थनं जीन इन्सयोरेन्स

धावरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह में सांसद तरेन्द्र कुमार खीचड़, मुख्यमंत्री के सलाहकार व खेलड़ी विश्ववक

## सांसद नरेन्द्र स्त्रीचड़ ने दस लाख रूपए सांसद कोष से व प्रधान मनीया गर्जर ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी

भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी श्रद्धांजील दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयो के

कुष्ठ। सम्भागन म माहम क उपाववार अगरा भारतागर, NZIEA के अध्यक्ष आर.सी भागी, महासाचिव नतीन चंद, मुख्य कोषाध्यक्ष रवींद्र शर्मा, CITU के प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र सुक्ता, AIIPA के संयुक्त सचिव सतीश खळेतवाल ने चित्रपर पर भाजपा नेताओं ने भूप, अगरवत्ती कर पुष्प अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संयुक्त सायेव स्ताश श्रुंडलवाल न सम्बंधिया किया। श्राम को आज्ञारी का जरून, संस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। अगारी दिन आगमी तीन वर्ष के लिये जरपुर मण्डल को सर्वसम्मति से नयी कार्यकारियों का गठन किया गया वो भाजपा मंत्रल अध्यक्ष अरकिन्द इंदौरिया ने रार नहीं अनुंगा, हार नहीं मानंगा कविता की पंक्तियाँ ाका नातूना कावता का पाक्तवा बोलते हुए, अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बाजपेबी के अमूल्य योगदान कावकारण का गठन करवा गया वा इस प्रकार है। अध्यक्ष – एम.के पुरवानी, उपाध्यक्ष - राजेन्द्र चौहान, अरक्टित गौगाडे, सचित्र – सुमित कुमार, संगठन सचित्र – सुरेश दानोदिया, अजय आर्या, के.पी.मीणा, को देश कभी भूला नहीं सकता, उन्होंने कटिन चुनौतियों का सामना करते हुए वैधिक दवाब दातांद्रया, ऽज्यव आयो, जं पो मीणा, संयुक्त सनित - पतन परीक, तीनंद्र न्यां, आर.के गोरानी, कोषण्यक्ष -शैलेन्द्र बत्तीशिक, सह कोषाध्यक्ष -ज्ञानेश्वर शर्मा व अकेश्वक - आर.पी विजय, सतीश कीशिक को चुना गया। को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था, कार्रागल बुद्ध में अपनी सफल रणनीति से

पाकिस्तान को धूल चटायी, उनका पूरा जीवन राष्ट्र को

कार्यकर्ताओं ने एक - एक कर समर्पित रहा। भाजपा के हर घर तिरंग नेता वाजपेयी को याद अधियान के विधानसभा क्षेत्र संयोजक दीनदयाल परोक ने कहा कि वाजपेशी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिये आदर

नेता के रूप में दिलों में रहकर

हमेशा जिंदा रहेंगे! ओबोसी

मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल

ववरवाल, वासुदेव चाकलान, मणीराम पंतार, शक्ति केन्द्र

संयोजक रमेश कुमार पारीक ने भी ठाजपेयी के जीवन चरित्र

का परिचय देते हुए उनकी

संबोधित किया। सभा के

पश्चात मंडल अध्यक्ष इंदौरिया

ने शत नमन अटल चरण में

कविताएं

करते हुए पुष्पांजलि अपित मंडल उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, राजकुमार सोनी, नारायण दायमां, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, परमेश्वर प्रजापत, राजकमार जांगीड प्रापंद प्रहलाद भागंब, दल् सिंह लंख. झाबरमल जांगीड, लुंछ, झाबरमल प्रकाश चन्द्र पारीक रामस्वरूप भार्गव, रक्षक, जुमरमल रंकरलाल कम्मा, गोगराज भाटी सहित दर्जनी कार्यकर्ता नहामंत्री रामकिशन मारोलिया

Technical Director (Civil & Electrical), DoFT&C अस ऑप्टीफाइबर लिमिटेड ा (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005)

RajCOMP Info Services Limited (RISL)

comes declinate and miles delicit assets of a street in artificial set of a street in artificial set of a street and set of a

The control of the co

.

# प्रशासन शहरों के संग अभियान

# एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता कबड्डी खिलाडी शालिनी पाठक को दिया पट्टा गालिनी पातक को पाथिकरण की

जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अंतर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान में एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता कबड्डी खिलाडी सुश्री शालिनी पाठक को निलय कृत योजना में भूखण्ड का नि:शुल्क

पट्टा दिया। वेडीसी ने बताया कि विजेता कबही खिलाडी मुश्री

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 150वीं बैतक दिनांक 13.11.2019 में लिये गये निर्णय पर्व राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकति दिनांक 21.07.22 के परिपेश्य में जोन-० की आवासीय योजना निलय कांज में भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर का आवंटन किया गवा था।

जेडीसी ने सताया कि कोन द्वारा मंगलवार को पढ़ा जारी करने की औपचारिकताएं महज कुछ ही पट्टा तैयार कर सुझो शालिनी णतक को जारो किया गया।

सुश्री शालिनी पाठक ने मिलने पर खुशी जाहिर की तथा राज्य सरकार के प्रशासन शहरी के संग अभियान की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार तथा जिल्ला अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि माननीय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एशियाई खेलों में ओलम्पिक,

प्रदर्शन कर मैडल जीत कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी

खिलाडियों को नि:शुल्क भूमि आवंटन करने की भोषणा की थी। माननीय मुख्यनंत्री की घोषणानुसार 18वें एशिवाई खेलो में रजत पदक विजेता कवड़ी खिलाडी शालिनो पाठक को निलय कुंज योजना में राज्य सरकार को स्थोकृति प्रधात भृखण्ड का नि:शुल्क पट्टा दिया।



### प्रेस क्लब कार्यालय के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी -रामलाल शर्मा प्रेस क्लब संस्था चौमूं का सेह मिलन समारोह आयोजित, आईएमए ने निजी अस्पतालों में पत्रकारों को विशेष रिवायत देने का दिया आश्वासन

चौमं। पिछले तेइस वर्षों से चली आ स्त्री ऐस वल कार्यालय की मांग को लेकर चौम्ं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रेस क्लब चौमूं कार्यालय के लिए नगरपालिका से जमीन का आवंटन करवा लें, जिसके बाद कार्यालय भ्रमत निर्माण की जिस्सेमधी उत्तमती हैं। कार्यास्त्र निर्माण के लिए धन की कमी नहीं आने दो जाएगी। चौमूं तहसील के सामोट स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित पेस वलब संस्था वीमूं के केह मिलन समारोह में विधायक रामलाल रमां ने कर्ज कि पटेश प्रवक्त रोने के नाते मेत भी प्रवकारों से गरम लगाव रहा है। इसी कारण से पत्रकारों की हर सगस्या के समाधान के लिए उनके साथ खज़ हूं। समारोह में जार के प्रदेश अध्यक्ष हरीब्रह्मभ गेमबाल ने कहा कि वर्तगान सगय



में पत्रकारों के समक्ष बहुत सारो चुनौतियां हैं और सरकार से मिलने वाली सुविधाएं सीमित हैं। इस द्वीरान मेपबाल ने प्रमुक्तारों के करणाता के जिस सर्विकार स्थापितासक ऑक राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझ की। वरिष्ठ पत्रकार एएस सिलावट ने कई दक्षकों के अपने पत्रकारिता के अनुभव साझा करते हुए वर्तमान समय में

पत्रकारों के समक्ष चुनैंतियों पर विचार व्यक्त किए। समागेः में डॉ.श्रवण वराता, इंडियन मेडिकल एसोसिएरन के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं चौमूं इकाइं अध्यक्ष चाँ. एत.के. अग्रवाल, डाँ. रामनारायण यादव, डाँ. शिखा मील, भाजना के युवा नेता रथाम शर्मा, डाँ. हनुमान बराला आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम प्रेस बलब अध्यक्ष जितेंद्र संगय ने कहा कि चौमुं प्रेस क्लाव के लिए कार्यालय की लंबे समय से मांग चली आ रही है। हमारा पहला लक्ष्य प्रेस बलब संस्था चौमं के लिए कार्यालय की जमीन आवंदित करवान और कार्यालय बनवाना है। बरिष्ठ उपाध्यक्ष गजानंद कुगावत ने कहा कि पत्रकारिता में कोई छोटा और बडा नहीं होता है सभी पत्रकारों के अधिकार और जिम्मेदारी समान है।

# जयपुर विकास प्राधिकरण

मांक : जनिप्रा/जोन–12/2022/की–2311

आम सूचना क्षी रिक्टास विकास समिति नीर्दंड को योजना सन्त रिक्टास कॉलोनी का आवंटन्-नियम्न शिविर आयोजित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना ग्राम नीदंड तहसील आमेर जिला जवपुर के अप्रतिक्षि खररा नम्बरों के भागपर बोजना सुजित हैं :-

ग्राम का नाम मब तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकवा (हैवटे. में )	स्वामित्व	कैम्प दिनांक	कैम्प स्थान
नीदंब तहसील आमंर	3345	0.60	जवपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	26.08.2022	निजी खातंदारी सन्तिस्टी योजना के धैनगेट के पास पार्क में
	3346	0.59			
	3344	0.65 ਫ਼ੈਸਟ, ਸੋਂ ਜੇ			

अवार 3388 पार के 100118 किया है। अपने के 100118 किया किया किया वालेकर मित्रा के स्थापन के 100118 किया किया किया वालेकर मित्र के 100118 किया किया किया वालेकर महिलाह अपूर्ण प्रधानी मानिक अंकर का अब कियों जो अबसे कार्यों के स्थापन के 100118 के 1001